

TRANSPORT ENGINEERING DEPARTMENT

परिवहन इंजीनियरिंग विभाग

हमारे संदर्भ: टीईडी 6/ए -3

दिनांक 27.03.2019

Subject: Reaffirmation of Indian Standards pertaining to Automotive Body, Chassis, Accessories, Garage Equipment, Springs and Suspension Systems Sectional Committee TED 6

विषय: ऑटोमोटिव बॉडी, चैसिस, सहायक उपकरण, गैरेज उपकरण, स्प्रिंग्स और सस्पेंशन सिस्टम अनुभागीय समिति टीईडी6 से संबंधित मानकों का पुनः पुष्टिकरण

The Indian Standards given below have been reaffirmed during the month of February 2019 by the Automotive Body, Chassis, Accessories, Garage Equipment, Springs and Suspension Systems Sectional Committee TED 6 for a further period of five years from their due date.

निम्नलिखित भारतीय मानकों का, ऑटोमोटिव बॉडी, चैसिस, सहायक उपकरण, गैरेज उपकरण, स्प्रिंग्स और सस्पेंशन सिस्टम अनुभागीय समिति टीईडी 6 के द्वारा उनकी पुनः पुष्टिकरण तिथि से, फरवरी 2019 में आगामी पांच वर्षों के लिए पुनः पुष्टिकरण किया गया है :

Sl. No	IS No.	TITLE
1.	IS 5423:1989	Automotive vehicles - Shock absorbers - Specification (second revision)
2.	IS 7906(Part 2):1975	Helical compression springs: Part 2 Specification for cold coiled springs made from circular section wire and bar
3.	IS 7906(Part 4):1987	Helical compression springs : Part 4 Selection of standard cold coiled springs made from circular section wire and bar
4.	IS 7906(Part 5):2004	Helical compression springs : Part 5 Hot coiled springs made from circular section bars - Specification (second revision)
5.	IS 7906(Part 7):1989	Helical compression springs : Part 7 Quality requirements for cylindrical coil compression springs used mainly as vehicle suspension springs
6.	IS 7906(Part 8):1989	Helical compression springs: Part 8 Method of inspection of hot coiled compression springs made from circular section bars
7.	IS 7907(Part 1):2004	Helical compression springs: Part 1 Design and calculations for springs made from circular section wire and bar (first revision)
8.	IS 7907(Part 2):1976	Helical extension springs: Part 2 Specification for cold coiled springs made from circular section wire
9.	IS 9574:2004	Leaf springs assembly - Clips – specification (second revision)
10.	IS 10063:1982	Dimensions of end fittings of rear shock absorbers for scooters and motorcycles
11.	IS 12056:1987	Recommendations for safety requirements for fuel tank assembly of automotive vehicles
12.	IS 12511(Part 1):2004	Springs - Disc spring: Part 1 Design calculation (first revision)
13.	IS 12511(Part 2):2004	Springs - Disc spring: Part 2 Specification (first revision)
14.	IS 12648:1989	Automotive vehicles - End mountings of shock absorbers - Dimensions and tests
15.	IS 13941:1994	Automotive vehicles - Wheel fasteners and hub caps - General requirements

Sl. No	IS No.	TITLE
16.	IS 13942:1994	Automotive vehicles - External projections - Performance requirements
17.	IS 13944:1994	Automotive vehicles - Window retention and release systems for buses - Safety requirements
18.	IS 14210:1994	Automotive vehicles - Rear view mirrors - Specification
19.	IS 14226:1995	Automotive vehicles - Hood latch system – Method of test
20.	IS 14247:1995	Automotive vehicles - Exterior protection for passenger car - Performance requirements
21.	IS 14681:1999	Automotive vehicles - Fuel tanks for two, three wheelers and Quadricycles
22.	IS 15453:2004	Springs - Torsion bar springs – Specification
23.	IS 15547:2005	Automotive vehicles - Plastic fuel tank for four wheelers
24.	IS 16219 : 2014	Automotive vehicles - Metallic fuel tanks – Specification

Director (Sales)/DPT/D (PUB)/DLSC may kindly take suitable action for affixing the year of reaffirmation to these Indian Standards.

निदेशक (बिक्री) /डीपीटी/डी (पीयूबी) /डीएलएससी से अनुरोध है की वे उपरोक्त भारतीय मानकों पर पुनः पुष्टिकरण के वर्ष की स्थापना के लिए उचित कार्यवाही करें।

(आर आर सिंह) (R.R.Singh)

वैज्ञानिक 'ई' प्रमुख (परिवहन इंजि.) Scientist 'E' & Head (TED)

Director (Sales)

DPT

D (PUB)

DLSC

Copy to:

i) All Regional Offices

All by email

ii) All Branch Offices

iii) All Inspection Offices

iv) All Technical Departments in HQ

v) All Labs

vi) ITS Dept. - with the request to upload the information on BIS intranet